



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 26 अप्रैल, 2023

वैशाख 6, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3

संख्या 133/65-3-2023-01-2017

लखनऊ, 26 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

सा०प०नि०-12

चूँकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 101 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सम्भाव्य रूप में प्रभावित होने वाले समस्त संबंधित व्यक्तियों से आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023 का प्रारूप सरकारी अधिसूचना संख्या 26/65-3-2023-01-2017, दिनांक 03 फरवरी, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था;

और, चूँकि, उक्त प्रारूप पर पूर्वोक्त अधिसूचना के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतएव, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 49 सन् 2016) की धारा 101 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:-

उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार (द्वितीय संशोधन) संक्षिप्त नाम और नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह गजट में अंतिम रूप से प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 21 का
संशोधन

2— उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 (जिसे आगे “उक्त नियमावली” कहा गया है) में नीचे स्तम्भ एक में दिये गये नियम-21 के उपनियम (1) के विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात:-

**स्तम्भ-एक
(विद्यमान खण्ड)**

(ग) वह भर्ती वर्ष के 01 जनवरी को छप्पन वर्ष की आयु से कम न हो।

**स्तम्भ-दो
(एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)**

(ग) वह भर्ती वर्ष के 01 जनवरी को अधिकतम उनसठ वर्ष का न हो।

नियम 23 का
संशोधन

2— उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ एक में दिये गये विद्यमान नियम 23 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

**स्तम्भ-एक
(विद्यमान नियम)**

23—(1) राज्य आयुक्त पदभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जायेगा।

(2) कोई व्यक्ति पैंसठ वर्ष की ऊपरी आयु सीमा के अध्वधीन अधिकतम दो कार्यकाल के लिये राज्य आयुक्त के रूप में सेवा कर सकता है।

**स्तम्भ-दो
(एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)**

23—(1) राज्य आयुक्त पदभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जायेगा। कोई व्यक्ति एक कार्यकाल के लिये ही राज्य आयुक्त के रूप में सेवा कर सकता है।

(2) निकाल दिया गया।

आज्ञा से,
हेमन्त राव,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 133/65-3-2023-01/2017, dated April 26, 2023:

No. 133/65-3-2023-01/2017

Dated April 26, 2023

Whereas the draft of the Uttar Pradesh Rights of Persons with Disabilities (Second Amendment) Rules, 2023 was published by Government notification no. 26/65-3-2023-01-2017 dated February 3, 2023 with a view to inviting objections and suggestions from all concerned likely to be affected thereby as required under sub-section (1) of section 101 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016;

AND WHEREAS objections and suggestions received in pursuance of the aforesaid notification on the said draft have been considered by the State Government .

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred under section 101 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Act no. 49 of 2016) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017:-

THE UTTAR PRADESH RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (SECOND AMENDMENT) RULES, 2023

1-(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Rights of Persons with Disabilities (Second Amendment) Rules, 2023. Short title and commencement

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the *Gazette*.

2. In the Uttar Pradesh Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 (hereinafter referred to as the 'said rules'), for the existing clause (c) of sub-rule (1) of rule 21 set out in Column-I below, the clause as set out in column-II shall be *substituted*, namely :- Amendment of rule 21

COLUMN-1

(Existing rule)

(c) he is less than fifty-six years of age as on the 1st January of the year of recruitment;

COLUMN-2

(Clause as hereby substituted)

(c) he is maximum fifty-nine years old as on 1st January of the year of recruitment;

3. In the said rules, for the existing rule 23 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:- Amendment of rule 23

COLUMN-1

(Existing rule)

23(1) The State Commissioner shall be appointed on full time basis for a period of three years from the date on which he assumes office, or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.

(2) A person may serve as State Commissioner for a maximum of two terms, subject to the upper age limit of sixty-five years.

COLUMN-2

(Rule as hereby substituted)

23(1) The State Commissioner shall be appointed on full time basis for a period of three years from the date on which he assumes office. A person may serve as State Commissioner for only one term.

(2) *Omitted*

By order,
HEMANT RAO,
Apar Mukhya Sachiv.